



कोविड-19 महामारी के दौरान ब्रैम्पटन में थैंक्सगिविंग 2020

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (6 अक्टूबर, 2020) – इस वर्ष, थैंक्सगिविंग (Thanksgiving), सोमवार, 12 अक्टूबर को है।

फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Fire and Emergency Services), ट्रैफिक सर्विसिज (Traffic Services), बाइ-लॉ एन्फोर्समेंट (By-Law Enforcement), रोड ऑपरेशंस (Road Operations), और सिक्योरिटी सर्विसिज (Security Services) सहित, सभी महत्वपूर्ण सेवाएं, हमारे समुदाय की मदद के लिए पहले की तरह ही जारी रहेंगी।

किसी भी सवालों के लिए निवासी, 311 पर या 905.874.2000 (ब्रैम्पटन के बाहर से) पर फोन कर सकते हैं, ब्रैम्पटन 311 (Brampton 311) ऐप (जो ऐप स्टोर (App Store) या Google Play (गूगल प्ले) पर उपलब्ध है) का उपयोग कर सकते हैं, www.311brampton.ca पर जा सकते हैं या 311@brampton.ca पर ईमेल कर सकते हैं। हम सिटी ऑफ ब्रैम्पटन या रीजन ऑफ पील (Region of Peel) के किसी भी मुद्दों के लिए, 24/7 उपलब्ध हैं। इन मुद्दों में शामिल हैं, कोविड-19 (COVID-19) से संबंधित सवाल, जैसे मास्क पहनना, और केवल तय मुलाकात के द्वारा ही, सिटी की चुनिंदा फैसिलिटीज के सुरक्षित रूप से दुबारा खुलने के बारे में सवाल। अधिक जानकारी के लिए www.brampton.ca/covid19 पर जाएं।

पटाखों से सुरक्षा

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, थैंक्सगिविंग को पटाखों के किसी डिस्प्ले का आयोजन नहीं करेगी और निजी पटाखों की अनुमति नहीं है।

थैंक्सगिविंग, वर्ष के उन चार दिनों में से एक नहीं है, जब सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में, निजी पटाखों की अनुमति होती है। अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/bylaws पर जाएं।

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit), थैंक्सगिविंग सोमवार (Thanksgiving Monday) को कुछ रद्द किए गए रूट्स के साथ, रविवार/छुट्टी के दिन वाले शेड्यूल पर काम करेगा। कृपया सफर करने से पहले शेड्यूल देखें।

संपर्क केंद्र (Contact Centre) खुला है और सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, 905.874.2999 पर सहायता के लिए उपलब्ध है।

ग्राहक सेवा (Customer Service) काउंटर बंद हैं और ब्रैमली (Bramalea), ब्रैम्पटन गेटवे (Brampton Gateway) और डाउनटाउन (Downtown) टर्मिनल्स में टर्मिनल की बिल्डिंग का समय, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक है। ट्रिनिटी कॉमन (Trinity Common) टर्मिनल बंद रहेगा।



अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय अधिकतर बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है।

सिटी का, सवारियों से अनुरोध है कि वे जितना अधिक से अधिक संभव हो सके, मास्क पहनकर भी, बसों में, टर्मिनल्स पर और बस स्टॉप्स पर लगातार शारीरिक दूरी कायम रखें। सवारियों को यह भी याद दिलाया जाता है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें, बार-बार अपने हाथ धोएं और खांसते या छींकते समय मुंह को अपनी कोहनी से ढक लें। यदि आप बीमार हैं, तो कृपया ट्रांज़िट पर सफर करने से परहेज करें, अपनी निकटतम कोविड-19 असेसमेंट साइट पर टेस्ट करवाएं और पब्लिक हेल्थ के निर्देशों का पालन करें।

पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह से, सवारियों को याद दिलाया जाता है कि बसों पर और टर्मिनल्स पर, आपके नाक, मुंह और ठोड़ी को ढकने वाले गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) जरूरी हैं। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है।

नियमित अपडेट्स के लिए www.brampton.ca/covid19 पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए bramptontransit.com पर जाएं अथवा Twitter पर [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र से 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

ब्रैम्पटन रेक्रिएशन

रेक्रिएशन सेंटर (Recreation Centres), थैंक्सगिविंग के अवसर पर बंद रहेंगे लेकिन मंगलवार, 13 अक्टूबर को चुनिंदा जगहें, केवल तय मुलाकात द्वारा आने के लिए ही दुबारा खुलेंगी। जगह आरक्षित कैसे की जाए सहित, रेक्रिएशन संबंधी सभी प्रोग्रामों और सेवाओं के बारे में और जानकारी के लिए, www.brampton.ca/recreation पर जाएं।

एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल के साथ घर पर रहते हुए ही सक्रिय और जुड़े रहना जारी रखें। पूरे शरीर की एक्सरसाइज करने का प्रयास करें, सीखें कि ओरिगेमी हार्ट कैसे बनाते हैं, अपने सुंदर लिखावट (कैलिग्राफी) कौशलों का अभ्यास करें! www.brampton.ca/recathome पर कई प्रकार की रेक एट होम (Rec at Home) गतिविधियों तक पहुंच प्राप्त करें।

ब्रैम्पटन के पार्कों की पतझड़ की सफाई

अपने घर के आसपास, लोकल पार्क या अपनी दुकान या ऑफिस के सामने – हमारी पतझड़ की सफाई (Fall Cleanup) के हिस्से के तौर पर हमारे शहर में कूड़े को साफ करने में मदद के लिए थोड़ा समय निकालें। www.brampton.ca/cleanup पर ऑनलाइन रजिस्टर करके, आप मुफ्त सफाई किट प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में और जानने के लिए कैसे एक ब्रैम्पटन निवासी, इसका नेतृत्व कर रहा है और ग्रीन प्रभाव डाल रहा है, हमारे ऑनलाइन अभियान “बी लाइक बिल” (“Be like Bill”) जरूर देखें।



ब्रैम्पटन लाइब्रेरी

ब्रैम्पटन लाइब्रेरी (Brampton Library) की ब्रांचें बंद हैं और सोमवार, 12 अक्टूबर को चुनिंदा जगहों पर, पगडंडी के किनारे से वस्तुएं लेना (Curbside Pickup) उपलब्ध नहीं है। अपने ब्रैम्पटन लाइब्रेरी (Brampton Library) कार्ड और पिन (PIN) से, मुफ्त ई-बुक्स और ई-ऑडियोबुक्स, मनोरंजन स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन प्रशिक्षण और मुफ्त में [डिजिटल लाइब्रेरी \(Digital Library\)](#) में और बहुत कुछ देखें। अपने खाते में सहायता के लिए या [एक ऑनलाइन लाइब्रेरी कार्ड प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें \(Click here to get an online library card\)](#)। हर उम्र के व्यक्तियों के लिए दिए गए आभासी (वर्चुअल) प्रोग्रामों में हिस्सा लें। [ब्रैम्पटन लाइब्रेरी के ईमेल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके \(subscribing to Brampton Library email updates\)](#) संपर्क में रहें और Facebook, Twitter तथा Instagram @bramptonlibrary पर, हमसे जुड़ें।

ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज

ब्रैम्पटन एनिमल शेल्टर (Brampton Animal Shelter), सिविक हॉलिडे को बंद रहेगा।

एनिमल कंट्रोल (Animal Control), सोमवार से शुक्रवार, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक और शनिवार तथा रविवार और छुट्टियों वाले दिनों को, सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक चालू रहेगा। वे केवल नीचे दिए कामों से संबंधित कॉल्स का ही जवाब देंगे:

- बीमार/ज़ख्मी/हिंसक घरेलू जानवर या जंगली जानवर का पिक अप
- हिंसक जानवर
- घर से बाहर निकले कुत्ते को बचाना
- कुत्ते के काटने की जांच
- बांधकर रखे आवारा कुत्तों का पिक अप
- मरे हुए जानवरों का पिक अप

इन घंटों के बाद, एनिमल कंट्रोल केवल एमरजेंसी कॉल्स का ही जवाब देगा।

थैक्सगिविंग वीकेंड के लिए पील पब्लिक हेल्थ के रिमाइंडर

अपना सामाजिक दायरा कम करें

कोविड-19 को जोखिम को कम करने के लिए, हम सभी को दूसरों के साथ हमारे संपर्क कम करने की जरूरत है। पील पब्लिक हेल्थ, जनसमूहों को छोटा रखने और आपके सामाजिक दायरे को, केवल आपके सगे पारिवारिक सदस्यों या जरूरी देखभालकर्ताओं तक सीमित रखने की सलाह देती है।

फैलने को जोखिम को कम करें

इस वर्ष, थैंक्सगिविंग पहले से अलग होगा। जैसे कि हम इकट्ठे मिलकर एक-दूसरे का धन्यवाद करते हैं, पर अब ऐसे चयन करना महत्वपूर्ण है, जो हमारे प्रियजनों को, कोविड-19 के जोखिम से बचाने वाले हों। इसे फैलने के जोखिम को कम करने के लिए, कम से कम दो मीटर की शारीरिक दूरी बनाकर रखें। जहां शारीरिक दूरी संभव न हो, वहां मास्क जरूर पहनें।

यदि आप एकत्र हो रहे हैं, तो संख्या सीमित रखें

मेजबानों को मेहमानों की संख्या को, सगे पारिवारिक सदस्यों और जरूरी देखभालकर्ताओं तक ही सीमित रखना चाहिए। महामारी के दौरान कम जनसमूह ही सही है। यदि आप अपने सगे पारिवारिक सदस्यों से बाहर के लोगों के संपर्क में जाने का चयन करते हैं, तो संख्या सीमित करें, इकट्ठे रहने का अपना समय कम करें, दूरी बनाकर रखें, मास्क पहनें और हाथ धोएं। यदि आप ठीक नहीं हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर मिलने की बजाय, आभासी (वर्चुअल तौर पर एकत्र हों, टेस्ट करवाएं और घर में दूसरों से बिल्कुल अलग रहें।

यदि आप बीमार हैं तो जनसमूह में न जाएं

क्या आपको थैंक्सगिविंग पर एकत्रित होने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन आप मौसम के कारण बीमार महसूस कर रहे हैं? चूंकि पील में, एकत्र होने से कोविड-19 का जोखिम बना हुआ है, इसले आभासी तौर पर जुड़ने का चयन करें, घर में दूसरों से बिल्कुल अलग रहें और तंदरुस्त रहने के लिए टेस्ट करवाएं।

इस बारे में और जानकारी के लिए कि इस थैंक्सगिविंग वीकेंड के अवसर पर, खुद को और प्रियजनों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, peelregion.ca/coronavirus/ पर जाएं या रीजन ऑफ पील को, [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर फॉलो करें।

-30-

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

रीजन ऑफ पील का मीडिया संपर्क

ऐश्ले हॉकिन्स (Ashleigh Hawkins)

कम्युनिकेशंस स्पेशलिस्ट – पब्लिक हेल्थ

द रीजन ऑफ पील

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca